IBM Auto Limited

Plot No. 133, Sector 24, Faridabad - 121 005 (Haryana)

Γ:+91-129-4090200 F:+91-129-2234230 W:www.jbmgrcup.com

E: secretarial.jbma@jbmgroup.com



JBMA/SEC/2025-26/30 08th August, 2025

Listing Department

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai - 400001 Script Code: 532605 The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, GBlock, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051

Symbol: JBMA

Sub

Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in Business Standard (Hindi and English, Delhi Edition) dated August 08, 2025 regarding the opening of special window for re-lodgement of the transfer requests of physical shares in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025.

Please take the above on your record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For JBM Auto Limited

Sanjeev Kumar Company Secretary & Compliance Officer

M No. 18087

Encl.: As above

Corp. Office: Plot No 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon- 122003 (Hr.] T:+91-124-4674500, 4674550 F:+91-124-4674599

Regd. Office: Plot No. 133, Sector – 24, Faridabad - 121005 (Hr.) T:+91 0129-4090200

CIN: L74899HR1996PLC123264

NIDO HOME FINANCE LIMITED

(formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited) Regd Office: Tower 3, Wing B, Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai-4000 70.

E-AUCTION - STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE Sale by E-Auction under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and The Securit est (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to borrower and guaranter that below mentioned properly will be sold on "AS IS

WHERE IS", AS IS WHAT IS "AND "WHATE VER THERE IS" for the recovery of amount as mentioned in appended table til the recovery of load dues. The said properly is mortgaged to **Nido Home Finance Limited** (formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited) for the loan availed. by Borrower(s), Co borrower(s) and Guarantor(s). The secured creditor is having physical possession of the below mentioned Secured Asset Name of Borrower(s)/Co Borrower(s)/ Guarantor(s) MOHD. SUAVALIN (Borrower) Amount of Recovery Reserve Price and EMD the Auction Rs.36,58,609.08/- (Thirry Six Lakh Sixty Eight Thousand Six Hundred and nine point zero eight only) as on 31.07.2025 + Rs. 46.74.093/- (Rupees Forty Six Lakhs 23-08-2025 Between Sventy Four Thousand Ninety Three Only) Earnest Money Deposit Rs.4,67,409.30/-(CO-BORROWERS) (With 5 Minutes Mohd, Asif (Rupees Four Lakhs Sixty Seven Thousand Four Hundred & Nine point three zero Only)

Physical Possession Date:- 19-03-2025 Further Interest thereon+ Legal Expenses Unlimited Auto Mohd.Kamil, Mohd.Sajid FOR LAN NO. LDELLAP 0000050374 Date & Time of the Inspection:- 18.08.2025 between 11.00 am to 3.00 pm

DESCRIPTION OF THE SECURED ASSET:

Shop No.1, Ground Floor, without roof rights, B-5, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007

Note:- 1) The auction sale will be conducted online through the website https://sarfaesi.auctiontiger.net and Only those bidders holding valid Email, ID PROOF & PHOTO PROOF, PAN CARD and have duly remitted payment of EMD through DEMAND DRAFT/ NEFT/RTGS shall be eligi hle to participate in this "online e-Auction".

2) The intending bidders have to submit their EMD by way of remittance by DEMAND DRAFT / RTGS/NEFT to: Beneficiary Name: NIDO HOME FINANCE LIMITED,

Bank: STATE BANK OF INDIA Account No. 65226845199 -, SARFAESI- Auction, NIDO HOME FINANCE LIMITED, IFSC code: SBIN0001593 3) Last date for submission of online application BID form along with EMD is 23-08-2025

4) For detailed terms and condition of the sale, please visit the website https://sarfaesi.auctiontiger.net or Please contact Mr. Maulik Shrim

Ph. +91- 6351896643/9173528727, Help Line e-mail ID: Support@auctiontiger.net.

Mobile No. 9004359835/ 9768746624

Nido Home Finance Limited (Formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited Date: 08.08.2025

DCB Bank Limited,

(A-Set House, 7/56, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005) (Corporate & Registered Office: 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra)

DCB BANK

Sd/- Authorized Office

nido

E-AUCTION SALE NOTICE

[Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002]

E-Auction sale notice for sale of immovable Assets under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8/6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s), co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB BANKLTD., The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The property will be sold by tender cum public E-auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the

The property will be sold "as is where is", "as is what is", "as is how is", " whatever there is" & on a "No Recourse" basis without any

Sr. No.	Name of Borrower and Guarantors	Details of Mortgage Property	Reserve Price / 2. Earnest Money Deposit (EMD) / 3. Bid Increase Amount	Date & Time of E-Auction	Type of Possession
1.	 Vishal Vashisth & Meenu Vashisth Residential Flat No309 on Third Floor Rajawat Apartment, Built up on Khasra No 1060, 1017 & 1009 at Shri Ram Vihar Gummat, Hariparwat Ward, Agra Uttar Pradesh-282004, Area - 750 Sq F 		1.Rs.850000/-(Rupees Eight Lakh Fifty Thousand Only), 2.Rs.85000/- (Rupees Eighty Five Thousand Only), 3.Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
2.	1.SONU PANCHAL, 2.KANTA DEVI and 3.LAKHMI CHAND	HOUSE NO 452, OLD HAMIDA, NEAR GURUDAWARA VAKA RAKEHA MOJA MAMIDI, YAMUNA NAGAR, HARYANA- 135001	1.Rs.800000/- (Rupees Eight Lakh Only), 2.Rs.80000/- (Rupees Eighty Thousand Only), 3.Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
3.	NOORUZZAMA SIDDIQUI and GULNAZ SIDDIQI	SIDDIQUI and KHASRANO. 417, 418, 421, 422, 2.Rs.120000/- (Rupees One Lakh Twenty)		29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
4.	Sanjeev Adlakha, Pan Polar Engineers Pvt Ltd (through its Director Sanjeev Adlakha), Madhumta Adlakha And Pritam Lal Adlakha	Polar Engineers Ltd (through its rector Sanjeev kiha), Madhumita kiha), Madhumita akha And Pritam motagaed property		29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
5.	Sanjeev Adlakha, Pan Polar Engineers Pvt Ltd (through its Director Sanjeev Adlakha), Madhumita Adlakha And Pritam Lal Adlakha	an Polar Engineers VAISHALL, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201010. (Nagar Nigam Dues of Rs. Approx. 1.50 Lakhs over the property and notice affixed on our motoagoed property) 3. Rs.25,000/- (Rupees Two Lakh Twenty Thousand Only). 3. Rs.25,000/- (Rupees Two Lakh Twenty Thousand Only). Thousand Only).		29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
6.	MANVEER SINGH and SAVITA	House No. N-314, Second Floor Block – N, Sector – 23 Sanjay Nagar Ghaziabad, Uttar Pradesh -201002	1 Rs.90000/-{Rupees Nine Lakh Only), 2.Rs.90000/-{Rupees Ninety Thousand Only), 3.Rs.25,000/-{Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical

Inspection Date and Time:- of all properties from 28-07-2025 to 01-08-2025 Between 11:00AM to 04:00PM contact to Mr. Sumit Kumar-Mo. -7906633166, Mr.Nikunj Mathur-Mo. 9818979116 and Mr. Srajan Sharma – Mo. -8395032800 between 11am to 6pm.

Date and time of submission of EMD on or before 28-98-2025 up-to 5Pm, with requestietter of participation KYC, Pan Card, Proof of EMD at emaild sumit.kumar16@dcbbank.com, srajan.sharma@dcbbank.com and nikunj.mathur@dcbbank.com
The intending purchasers/bidders are required to deposit EMD amount by way of Demand Draft ONLY favouring DCB Bank LTD.

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION

The properties are being sold on an "as is where is", "as is what is", "as is how is" & on a "No Recourse" basis without any kind of warranties &

2) All Statutory Dues/Attendant Charges/ Other Dues including registration charges, stamp duty, taxes, etc. shall have to be borne by the purchaser and the Authorizes Officer or the bank shall not be responsible for any charges, lien in encumbrances or any other dues to the government or anyone else in respect of the e-auctioned property not known to the bank, the Bidder is advised to make their own independent

enquiries regarding the encumbrances on the property including Statutory Liabilities, Are ars of Property Tax, Electricity Dues etc. (Contact T.Jaya Prakash Reddy, Mob. No: 814200064: Back End Office: 814200066/63/62, Office mail Id: info@bankauctions.in & Mail Id: prakash@Bankauctions.in at their web portal https://bankauctions.in/ on the dates as mentioned in the table above with Unlimited Extension of 5 Minutes. Bidders are advised to delaided terms and conditions of auction sale before submitting their bids refer to the link https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-comer.

The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which is mandatory for e-bidding, from auction service provider (4closure.com), Mob. No. 8142000064, Back End Office: 8142000066/6362,

Prospective bidders may avail online training on e-auction from their registered mobile number only. Online E-auction participation is mandatory in the auction process by making application in prescribed format which is available along-with the offer/tender document on the website

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

Regd Off: Sec-B, Pkt-1, Space No-301 & 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj Sector B New Delhi - 110070

Consolidated

30 June

2024

386.27

36.69

36.69

25.31

25.31

1,108.12

0.23

Year Ended

2025

6,885.45

700.64

700.64

517.14

518.59

1,108.12

2,895.91

4.68

Quarter Ended

CIN:L92199DL1997PLC08886

Extract of Statement of Unaudited Consolidated & Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2025

30 June

2025

1,690.14

164.97

164.97

124.80

124.80

1,108.12

1.13

Date: 08.08.2025 Place : Ghaziabad, Agra (U.P), Haryana and Delhi

Particulars

Net Profit before Tax (Before Exception Item)

and Other Comprehensive Income (after tax)

Reserves (Excluding Revaluation Reserve)

Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)

Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss

Net Profit before Tax (After Exception Item)

Net Profit after Tax (After Exception Item)

Total Income from Operation

Earning per Share

Diluted

Place: New Delhi

Date: 07th August 2025

Authorized Officer, DCB Bank Limited

30 June'

2025

1,690.14

169.81

169.81

129.64

129.64

1,108.12

1.17

(Amount in INR lakhs, except per equity share data

Quarter Ended

Standalon

30 June

2024

386.27

44.92

44.92

33.54

33.54

1,108.12

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 BRANCH OFFICE: BAKKARWALA BRANCH, NEW DELH POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

hereas the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Bakkarwala Branch, New Delhi under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement o Security Interest Act 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(2) and 13(12) read with the Rule 3 of the Security Interest (Enforcement Rules 2002 issued a Demand Notice Dated 08/05/2025, calling upon the Borrower: - MRS. SEEMA W/O MR. DINESH KUMAR AND Co-Borrower MR. DINESH KUMAR S/o Sri Balwan Singh, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.30,42,734.60 (Rupees Thirty Lakh Forty Two Thousand Seven Hundred Thirty Four and Paise Sixty Only) (which represents the principal plus interest due as on the 08/05/2025), plus interes and other charges from 08/05/2025 to till date within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to pay the entire dues of the bank, notice is hereby given to the borrower, the Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described nerein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) o the said act, read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 on this 05th Day of August 2025. The borrower(s) and the Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to charge of Central Bank of India, Bakkarwala Branch, New Delhi for the amount of Rs.30,42,734.60 (Rupees Thirty Lakh Forty Two Thousand Seven Hundred Thirty Four and Paise Sixty Only) (which represents the principal plus interest due on the 08/05/2025), plus interest and other charges from 08.05.2025.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) o Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeer

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: (Detailed Description of the Secured Asset / Mortgaged Property) Owner and Mortgagor - Mrs. Seema W/o Mr. Dinesh Kumar. Description: Residential Flat, DDA Built LIG Flat Bearing No.41, on Ground Floor, Block - A 1, Pocket - 4, Sector-34, Rohini New Delhi-110034.

ELECTRONICA FINANCE LIMITED

Audumbar, 101/1, Erandwane, Dr Ketkar Road, Pune 411004, Maharashtra, India

POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8(1)]

Vhereas the Authorized officer of Electronica Finance Limited, a Non-Banking

Financial Institution, under the provision of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 Of 2002)

hereinafter referred to as "SARFAESI Act, 2002") having its Registered Office at

Audumbar, Plot No 101/1, Dr. Ketkar Road, Opp. To Paranjape Builder Office

Erandawane, Pune-411004 (hereinafter referred to as "EFL") and in exercise of the

powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest

(Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 31-Jan-2025 and

published on 04-Feb-2025 upon youthe undernamed-1. Lakhdatar Saree Emporium

House No 1661, Sarai Pukhta, Palwal, Faridabad, Haryana 121102 Mob No:

8950363460. 2. Sneha Gupta, House No 1661, Ward No-27, Agerseen Vihar, Sarai

Pukhta, Faridabad, Palwal, Faridabad, Haryana 121102 Mob No:-7206875938,

3. Ravi Gupta, House No 1661, Ward No-27, Agerseen Vihar, Sarai Pukhta,

Faridabad, Palwal, Faridabad, Haryana 121102 Mob No:- 8950363460., 4. Meen a

Gupta, House No 1661, Ward No-27, Agerseen Vihar, Sarai Pukhta, Faridabad

Palwai, Faridabad, Haryana 121102 Mob No. 9034841184. 5. Manoj Gupta, House No 1661, Ward No-27, Agerseen Vihar, Sarai Pukhta, Faridabad, Palwai, Faridabad

This is to inform you that the Notice dated 31-Jan-2025 issued under Section 13(2) of

the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Securit

interest Act, 2002 being served upon all above mentioned parties no. 1 to 5 on 06-02

2025 there by calling upon you to repay the amount mentioned in the notice being Rs

36,01,028/- (Rupees Thirty-Six Lakhs One Thousand Twenty-Eight Only) along with

interest within 60 days from the date of receipt of the said notice vide Loan A/C

"The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to

he borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of

the property described herein below in exercise of powers conferred on him under

sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interes

he borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to dea

with the Asset mentioned in Schedule I and any dealings with the Asset described in Schedule I Shall be subject to the charge of "EFL" for an amount of being

Rs. 36,01,028/- (Rupees Thirty-Six Lakhs One Thousand Twenty-Eight Only) and

The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13

DESCRIPTION OF PROPERTY

All that piece and parcel of the Property Freehold Residential Property No.1661,

area measuring 110 sq, yards, situated at Waka Mauja Palwal (Saray Pukhta

Ander Abadi / lal Dora, Tehsil & Dist. Palwal, haryana (hereinafter referred to as

the "Property in Question") Boundary of the aforesaid property: - Towards North-

38 ft. / House of Kali Charan Bansal, Towards South- 38 ft. House of Vijay Bansal

Towards East-27 ft./Rasta.Agrasain Park, Towards West-27 ft./ Gali

Haryana 121102, Mob No:-9034841184.

nterest other charges thereon.

Place: Palwal, Haryana

Date: 05/08/2025

Year Ended

31 March

2025

6.885.42

722.24

722.24

538.74

540.19

1,108.12

3,011.06

4.87

Number / Ref :- APPL00135880 (LOAN000005043451).

Enforcement) Rules, 2002 on the 05th day of August 2025.

of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset

DATE: 05/08/2025 PLACE: NEW DELHI

Central Bank of India

JBM AUTO LIMITED

Date: 06.08.2025

Place: Delhi

CIN: L74899HR1996PLC123264 Regd. Office: Plot No. 133, Sector - 24, Faridabad - 121005 (Haryana) T: +91 0129-4090200

E-mail: jbma.investor@jbmgroup.com Website: www.ibmgroup.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of JBM Auto Limited are hereby informed that a special window has been opened for a period of six months from July 07, 2025 to January 06, 2026, to facilitate re-lodgement of transfer request of physical shares

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents process/or otherwise. Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to contact our

Registrar and Share Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited at 179 180, DSIDC Shed, 3rd Floor Okhla Industrial Area, Phase - 1, New Delhi - 110020 Email id: helpdeskreply@mcsregistrars.com

For further details, please write to the Company at the designated email id jbma.investor@jbmgroup.com.

For JBM Auto Limited Sanieev Kuma

Place: Gurugram Date: August 07, 2025 Company Secretary & **Compliance Office** M. No. A18087

TACENT PROJECTS LIMITED

(Formerly known as Rahul Merchandising Limited Regd. Office: H NO. 1/61-B Vishwas Nagar, Shahdara, East Delhi-110032 Email id: rahulmerchandising@gmail.com, Website: www.rahulmerchandising.in CIN: L74899DL1993PLC052461, Ph: 7042309128

Extract of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended on 30 June, 2025 (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

5.5 5.2 6.0 to 100		Quarter Ended		
Particulars	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	0.00	332.69	2.75	335.44
Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)
Equity Share Capital	351.23	351.23	351.23	351.23
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)				(376.75)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-				
1. Basic	(0.04)	0.13	(0.04)	(0.11)
2. Diluted	(0.04)	0.13	(0.04)	(0.11)
Mark State of the	7 th 60 m	777	77 77	10 00

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the rebsite of the Company at www.rahulmerchandising.in

JBM 🗗

For Tacent Projects Limited (Formerly Known as Rahul Merchandising Limited

> (Somali Trivedi (Chairperson & Director

(Rs. In lakhs except EPS)

PUBLIC NOTICE
The General Public is Information that Mr. Ishan
Ranjan and Smt Shalini Ranjan S/o GopalRanjan Is the Owner of Flat No-501, 5th floo Kanchanjunga tower Kaushambi Ghaziabad U.F 201010. And they have Lost Original Documents Related to Said Property Like as:- (1) The Original General Power of attorney on Dated 10/01/1997, (2) Original Allotment Letter On Dated 23/04/1990, (3) Possession Letter On Dated 03/07/1992. If anyone Found these Origional Documents and have any objection Regarding these Documents of the Property nform me one my given mob No. 9911004142

Yogesh Kumar (Advocate



We will be closing our Vasant Vihar,

Delhi branch office situated at: Care Health Insurance Ltd., Building No. 38, 2nd Floor, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar New Delhi - 110057

For any future correspondence with us, you may visit:

Care Health Insurance Ltd., S-13. Green Park Ext. Opp. Uphaar Cinema New Delhi - 110016

For any further details please contact: Sukhbir Singh Contact No. +91 9311261008

Care Health Insurance Limited Regd. Office: 5th Floor, 19 Chawla House, Nehru Place, New Delhi-110019 CIN - U66000DL2007PLC161503

(IRDAI Regd. No.148)

STATE BANK OF INDIA

Home Loan Centre (15653)A-5, Pearls Best Heights -Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi- 110034

Appendix-IV UNDER [RULE - 8(1)] POSSESSION NOTICE

eas, the undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India, Home Loan Centre (15653), A-5, Pearls Heights-1, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034, under the securitization and reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a notice dated 29/04/2025 calling upon the Borrowers:- MRS. REENA LUKA W/O MR. SAURABH SHARMA, MR. SAURABH SHARMA S/O MR. NARENDRA NATH SHARMA AND NARENDRA NATH SHARMA S/O MR. CHAIT RAM SHARMA, all residents of Flat No. A-1203, OXY HOMEZ, Phase-Tower-A, New Dilshad Extension Loni Bhopura Road, Near Koyal Enclave Ghaziabad, Noida, Uttar Pradesh-201102, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.38,08,180/- (Rupees Thirty Eight Lakh Eight Thousand One Hundred Eighty Only) as on 27/04/2025, with further interest, incidental expenses, cost, charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower, above said, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Ac

read with Rule 8 of the said rules on this 06th of August 2025. The Borrower above said in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of State Bank of India, Home Loan Centre (15653), A-5 Pearls Heights-1, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 for an amount of Rs.38,08,180/- (Rupees Thirty Eight Lakh Eight Thousand One Hundred Eighty Only) as on 27/04/2025, together with further interest thereon at the contractual rate of interest till the date of payment & expenses thereon.

The Borrower attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Property owned by: Mrs. Reena Luka W/o Mr. Saurabh Sharma, Mr. Saurabh Sharma S/o Mr. Narendra Nath Sharma and Mr. Narendra Nath Sharma S/o Mr. Chait Ram Sharma (Borrowers)

(PROPERTY DESCRIPTION) Flat No.A-1203, OXY HOMEZ, Phase-I, Tower-A, New Dilshad Extn.

Loni, Bhopura Road, Near Koyal Enclave, Ghaziabad, Noida Uttar Pradesh-201102.

Date: 06.08.2025

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (www.touchwood.in). Previous periods figures have been

r and on Behalf of Board of Direct

Manjit Singh

ATTENDENCE OF DEFENDANT ORDER-5, RULE-20 CPC-1908 IN THE COURT OF SHRI RAVINDRA NATH DUBEY DISTRICT JUDGE COMMERCIAL COURT, NO. 1, JIL PANCHAYAT BHAWAN KASNA GAUTAN **BUDH NAGAR U.P** OS NO-113/25 IN THE MATTER OF

PROCLAMATION REQUIRING

Union Bank of India (E-Corporation Bank) S.R. Plaza, Sector-16-A-2151, Vasundhara

Ghaziabad:-201012

APPLICANT **VERSUS**

Authorised Office

Electronica Finance Limited

M/S Shah Enterprises Prop. Mrs.Manu Begum Shop No.G.F.24, Ground Floor, One Mart Mall, Sector-6, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form ir two sets along with documents & affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practioner in the court after serving copy of the same on the applicant or his counsel/dully authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the court on 26/09/25 at 10.30 am falling which the application shall be heard and decided in your absence.


court this 04-08-2025

Commercial Court No.01 Kasna Gautam Budh Nagar

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis every day with Stocks in the News in Business Standard.

To book your copy. SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



Business Standard Insight Out

इंडियन बैंक, कंझवाला शाखा

परिशिष्ट-IV (नियम-8(1)) कब्जे की सूचना (अचल मंपत्ति के लिए क्षरकर्ता इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकार्र के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभू और पुरर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और धरा 13(12) के साथ पठित र्रातभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के निरम 8 व 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी (1) श्री हिमांशु कुमार मोखरवाल पुत्र श्री सुंदर सिंह (ऋणी एवं बंधककर्ता), (2) श्रीमती अनुष्का पर्त्न श्री हिमांश् कुमार गोखरवाल (गारंटा) को हमारी कंझवाला शाखा, इंडियन बैंक ने एक मांर सूचना दिनांक 06.03.2025 जारी की जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की रिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लेखित रू. 40,17,775/- (रूपये चालीर लाख सत्रह हुजारसात सौ पिचहत्तरमात्र) 06.03.2025 तक बकाया गशि के साथ अनुबंध की दर से आगे बा ब्याज, लागते र खर्चों और अन्य शुल्कों के साथ ग्रिश को इस नोटिस की पावती की तरीख से 60 दिनों के भीतर, भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भातान करने में असफल होने पर, एतदुरारा ऋणी और आम जनता को सूचना दी जाती ह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इस अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत और नियम 8 व 9 के साथ रिठत प्रदल शक्तिर्से के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति को<u>दिनांक 05 अगस्ट, 2025</u> को सांकेतिक कब्जे में ले निया है। ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ किसी भी सरह का लेन-देन नहीं करने की चेतावरी दी जाती है औरसंपत्ति के साथ किसी भी तरह का किया गया कोई भी संव्यवहार रू. 40,17,775/-(रूपये चालीस लाख सत्रह हजार सात सौ पिचहत्तर मात्र) और अनबंध की दरसे आगे का ब्याउ, लागते र

खर्चों और अन्य शुल्कों वे साथ राशि इंडियन बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा। म सफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों औः उसके तहत बनए गए नियमों की ओर ध्या भाकर्षित करते हैं, जो प्रत्भितियों पर आपके मोचन के अधिकारों से संबंधित है।

शहल साम्यत्ति का विदर्स्थ। आवासीय संपूर्ण द्वितीयतल, बिना छत अधिकार के निर्मित संपत्ति नंबर- 21, क्षेत्रफल 48.00 वर्गमीटर क्योंक नंबर-सी, पॉकेट नंबर- 04, सेक्टर नंबर- 15, रोहिणी आवासीय न्कीम के लेआउट प्लान में रोहिणी, नई दिल्ली 114089 में स्थित, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आतृपातिक फ्रीहोल्ड अधिकारी सहित।सीमाएं: उत्तर: प्रवंश द्वार, दक्षिण: नर्बिस लेन, पूर्व: प्लॉट नंबर- 20, पश्चिम: प्लॉट नंबर- 22 दिनांकः 05.08.2025, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन वैंक

जेबीएम ऑटो लिमिटेड (CIN: L74899HR1996PLC123264) पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 133, सेक्टर 24,

फरीदाबाद - 121 005 (हरियाणा) फोनः +91 0129-4090200

ई-मेल: jbma.investor@jbmgroup.com वेबसाइट: www.jbmgroup.com



JBM 🐿

सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडीएंडपीओर्ड / पी , सीअईआर/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 वे अनुरूप, जेबीएम ऑटो लिनिटेड के शेयस्शारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी के नौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः दर्ज करने की सुविधा के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

शेयस्थारक कृपया ध्यान दें कि यह विंडो केवल ऐसी ट्रांसफर डीड्स पून: दाखिल करने के लिए है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे, और दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्यथा कोई कमी होने वे कारण अस्वीकार / वापस कर दिए गए / उन पर ध्यान नहीं दिया गया। शेयस्थारक, जो इस अवसर का लाग उठाना चाहते हैं, से अनुरोध है कि वे हमारे रजिस्ट्रार

और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट निमिटेड से 179-180, डीएनआईडीसी शेड, तीसरी मंजित ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेन - 1, नई दिल्ली 110020 पे या ईमेल आईडी: helpdeskreply@mcsregistrars.com पर संपर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया कंपनी को निर्धारित ईमेल आईडी: jbma.investor@jbmgroup.com पर लिखें।

कृते जेबीएम ऑटो लिमिटेड हस्ता/-संजीव कुमार कंपनी सचिव और स्थानः गुरूग्राम अनुपालना अधिकारी दिनांकः 07 अगस्त, 2025 सदस्यता सं. A18087

जनपथ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

(CN:U70100DL2004PTC21(992) पंजीकृत कार्यालय — आरए—3. इंदपुरी नई दिल्लो—110012

फॉर्म नं. आईएनसी 26 कंपनी (समामेलन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

क नियम 30 के अनुपालन में।
एक राज्य / संघ से दूसरे में कंपनी के
पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित
करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित
किए जाने केलिए विज्ञापन केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) व कंपनीज (समामेलन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में

मैसर्स जनपथ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

इसका पंजीकृत कार्यालय, आरए—3, इंद्रपुरी, नई दिल्ली—110012 इप्रपुरा, नइ विल्ला—110012 एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए बुधवार उ जुलाई, 2025 को आयोजित असामान्य असाधारण बैठक में गारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के संशोधन के एसा सिएशन के संशाधन के जी सुनिश्चतीकरण प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के तहत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को आवेदन करने का प्रस्ताव किया है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिकृचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस उस्तावित परिवर्वन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरुचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलाफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को इनवेस्टर शिकायत फॉर्म भारकर एमसीए—21 पोर्टल www.mca.gov.in) पर या क्षे निदेशक, पताः बी—2 विंग, दसरी मंरि क्षेत्रीय सीजीओ कॉम्प्लैक्स, भवन, दिल्ली—110003 के उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते अरए—13, इंद्रपुर्व, नुई दिल्ली—110012 पर आवेदक इंद्रपुर्श, नई दिल्ली–110012 पर आवेदक कंपनी की प्रति के साथ इस सूचना के प्रकारन की तिथि से 14 दिनों के भीतर भेज या डिलीवर कर सकते हैं।

आवेदक की ओर से और उन्हीं के लिए जनपथ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड विनूय सिंघल — निदेशक दिनांक : 02.08.2025 डीआईएन-00064236

फॉर्म नं.14 [विनियमन 33(2) देखें] कार्यालय वसली अधिकारी- ।/।। ऋण बसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तत, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17 ए, चंडीग (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर पी अतिरिक्त जगह आवंटित)

मांग सूचना ऋण वपूली एवं दिवालियपन अधिनियम, 1993 की थारा 25 से 28 तथा आस्कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस। एचडीएकसी बैंक

RC/353/2024

मैसर्स एस.डी. प्लास्टिक

To, (सीडी 1) मैसर्न एस.डी. प्लास्टिक प्रोपराईटरशिप कन्सर्न जरिये प्रोपराइटर श्रीवती सुमन देवी, 139, खोह (153), एनएसजी कैंप मानेसर गुड़गांव, हरियाणा-122051, अन्य पताः जी1 551 और 560 औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, अलवर। (सीडी 2) श्रीमती सुमन पुत्री श्री धन सिंह, ग्रोपराइटर (सांडा 2) जानता सुन्त रुता जा वर्ष तासह, त्रारपहर मैससं (पस.डी. प्लास्टिक, 139, खोह (153) एनएसची कैंप मानेसर, गुडगांव, हरियाणा-०, अन्य पता: श्रीमती सुमन पुत्री श्री धन सिंह प्रोपराइटर मैसस् एस. डी. प्लास्टिक, पता: जी1- 557 और 560 औद्योगिक क्षेत्र खुशकेहरा अलवर राजस्थान-301707 (सीडी 3) श्री देविन्दर सिंह पुत्र श्री हरपल सिंह नेवासी- 139, खोह (153), एनएसजी कैंप मानेस

तद्द्वार सूचित किया जाता है कि, पीठासीन अधिकारी हण वपुली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआस्टी 2) द्वार OA/291/2022 में पारित आदेशों के अनुपालन में वसूल बलाफ रुपये 59551869.69 (पाँच करोड़ पिच्यान लाख इक्यावन हजार आठ सौ उनहत्तर रूपये औ उनहत्तर पैसे) तथा 29/01/2022 से तेकर पूर्ण मगतानतक 18% चक्रवद्धि मासिक व्याज दरसे भविष त ब्यान और रुपये 150005 (एक लाख पंचास हजा पाँच रुप्ये) की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से अं अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से) देव हो गई है 2. आपको उपर्युक्त राशि वो इस नोटिस के प्राप्त के 15 दिनों के भीतर भगतान करने के लिए निर्देशित किया जात है, अन्यवा वसूली 'बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की वसूनी अधिनियम, 1993' और उसके तहत नियमों के अनुसर की जाएगी। 3. आपको आदेशित किया जाता है कि अप अपनी संपत्तियों का विवरण एक शमथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई की तारीख से पहले घोषित करें। 4. आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक **26/09/2025** को प्रातः 10:30 बर्ज उपस्थित हों। 5. उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नतिखित क मुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे: (ए) प्रमाण पः नेष्पादन कार्यवाही की इससूचना के तुरंत बार शुरू होने ासली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत, प्रभार और व्यय। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर औ: अधिकरण की मुद्दर के साध देनांक 14/07/2025 कोजारी किया गया

वसली अधिकार्र ऋग वसूली अधिकाण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

HCL INFOSYSTEMS LIMITED

CIN: L72200DL1986PLC023955 Regd. Off.: 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi 110 019. Corp. Off.: A-11, First Floor, Sector -3 Noida, UP 201301. Phone number: +91 120 2520977, 2526518-19

Website: www.hclinfosystems.in; Email ID: cosec@hclinfosystems.com

SI. No.	UNAUDITED CONSOLIDATED F FOR THE QUARTER ENDED Particulars	Quarter ended	Quarter ended	₹ in Lakhs Year ended	
		30-Jun-2025	30-Jun-2024	31-Mar-2025	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1.	Total income from operations	1,276	1,380	5,008	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(450)	(413)	(2,695)	
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(450)	(413)	(2,111)	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(450)	(413)	(2,111)	
5.	Net Profit/(Loss) for the period lefore tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations	25	26	-	
6.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations, including disposal	9	¥1	-	
7.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(450)	(413)	(2,111)	
8.	Total comprehensive income for the period (comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(431)	(415)	(2,166)	
9.	Paid up equity share capital	6,584	6,584	6,584	
10.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			(35,682)	
11.	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	Basic:	(0.14)	(0.13)	(0.64)	
	Diluted:	(0.14)	(0.13)	(0.64)	

PARTICULARS	Quarter ended	Quarter ended	Year ended 31-Mar-2025	
**************************************	30-Jun-2025	30-Jun-2024		
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations	22.2	248	1,084	
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional items	(207)	(411)	(1,484)	
Net Profit / (Loss) for the period before tax and after exceptional items	(428)	(412)	(2,185)	
Profit /(Loss) after tax and after exceptional items	(428)	(412)	(2,185)	
Total comprehensive income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(428)	(412)	(2,191)	

Notes: 1). After recommendation by the Audit Committee, the standation and consolidated financial results have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on August 06, 2025. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Discosure Requirements) Regulation 2015.
2). The above s an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Discosure Requirements) Regulations; 2015. The full format of the consolidated and standatione Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and www.nselidia.com) and also available at the company's website wave before consolidated. website www.hclinfosystems.in. These can be accessed by sranning the below QR code

Place : Noida Date : August 06, 2025



By order of the Board for HCL Infosystems Limited Sd/-Nikhil Sinha

HCL **HCL INFOSYSTEMS**

शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड शिवातिक स्मॉल फार्रेम, बैंक लिम्टिड 601, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सॅटर, ्री, दिल्ली – 110025 ली, दिल्ली – 110025 श्वालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लि., रामपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अचल सम्पत्तियों की विक्री के लिए नीलामी सह विक्री सूचना हेतु सार्वजनिक सूचन

परिशिष्ट - IV-क [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

वितीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियमक(७) वं परंतुक के तहत अचल आरितयों की बिक्री के संबंध में खुली नीलामी बिक्री सूत्रना। एतद्वारा सर्वसाधारण के तथा विशेष रूप से कर्जदार(र्ग) तथा गारंटर(रों) को बुचना दी जाती है कि प्रत्याभूत तेनदार के पास बंधक / प्रभारित नीचे वर्णित सम्पत्ति का रचनात्मक कब्जा प्रत्याभ्त लेनदार, शिवलिक स्मॉल फड्नेंस बैंक लिम्टिंड के प्रीचकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, 1. **गैसर्स. शिव कृषि रक्षा केंद्र (उधारकता) इसके प्रोपराईटर द्वारा श्री नरेंद्र कुमार, निवासी मकान सं., पेट्रोल पंप के पास,** दिल्ली रोड रामपुर मनिहारान स्हारनपुर उत्तर प्रदेश 247451, 2. नरेंद्र कुमार (प्रोपराईटर / बंबककती) निवामी मकान नं., पेट्रोल पंप के पास, दिल्ली रोड रामपुर मनिहारान सहाररपुर उत्तर प्रदेश 247461, 3. सुशील कुमार पुत्र तिलक राम (गाएंटर) निवासी मकान नं. ग्राम कल्लरपुर गुज्जर रमपुर मनिहारान सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247451, 4. रवीद्र कुमार उर्फ सोनू पंवार पुत्र मैम सिंह (गारंटर/बंधककर्ता) निवासी मकान नं. ग्राम कल्लरपुर गुज्जर रामपुर मनिहारान सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247451 से प्रत्यामृत लेनदार. शिवालिक स्मॉल काइनेंस बैंक तिमिटेड की 28.04.2025 तक बकाया राशि रूपये 7.70.000 / – (रु. सात लाख सत्तर हजार मात्र) + इसके पश्चात ब्याज और प्रभारों की वसूली के लिए "जैसी है जह है", जैसी है जो है" तथा "जो कुछ भी वहां है" के आधार पर दिनांक 10.09.2025 को बेची जाएगी। पुरक्षित मूल्य रूगये 4,72,000/- (रूपये चार लाख बहत्तर हजार गत्र) होगा तथा धरोहर राशि बोली राशि की 10% अर्थात रूपये 47.200/- (रूपये सैंतालीस हजार दं शौ मात्र) होगी, पश्चवर्ती राशि बैंक में 09.09.2025 को अथवा पूर्व अप. 5 बजे तक जमा करानी होगी। जिसका विवरण नीचे दिया गया है

कर्जदार(सें) / गारंटर(सें) का नाम	मांग सूचना तिथि और मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल सम्पत्तियाँ का वर्गन	सुरक्षित मूल्य	धरोडर राशि जमा (ईएम्डी)
1. मैसर्स. शिव कृषि रक्षा केंद्र (उद्यारकता) इसके प्रोपराईटर हारा श्री नरेंद्र बुमार, निवासी मकान सं., पेट्रोल पंप के पास, दिल्ली रोड रमपुर मनिहाशन सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247451, 2. नरेंद्र कुमार (प्रोपराईटर / बंधककता) निवासी मकान नं., पेट्रोल पंप के पास, दिल्ली रोड रामपुर मनिहाशन सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247451, 3. सुशील कुमार पुत्र तिलक रम (गारंटर) निवासी मकान नं. ग्राम कल्लरपुर गुज्जर रमपुर मनिहाशन सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247451, 4. रवीन्द्र कुमार उर्फ सोन्, पंवार पुत्र मैम सिंह (गारंटर / बंधककता) निवासी मकान नं. ग्राम कल्लरपुर गुज्जर रामपुर उत्तर प्रदेश 247451 (ग्रारंटर / बंधककता) निवासी मकान नं. ग्राम कल्लरपुर गुज्जर रामपुर मनिहाशन रहारनपुर उत्तर प्रदेश 247451 (ग्रारंटर / बंधककता) निवासी मकान नं. ग्राम कल्लरपुर गुज्जर रामपुर सनिहाशन रहारनपुर उत्तर प्रदेश 247451 (ग्रारंप खाता नं. 101441510003, 101441510412)	रु. 7.70,000 / – (रु. सात लाख सत्तर इजर मात्र)	अचल संपत्तियों का वह समस्त भाग एवं अंश जोकिः व्यावसायिक संपत्ति, क्षेत्रफल 25.80 वर्ग मीटर रामपुर मज्यता बरून हदूस, दिल्ली रोड, रामपुर मनिहारन परगना और तहसील रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित, राजस्य अभिलेखों में बही सं. 1, जिन्द संख्या 3616, पृष्ठ संख्या 299—316, क्रमांक 8661 दिनंक 08—08—2005 को पंजीकृत। ग्रह संपत्ति नरेंद्र कुमार और रवींद्र कुमार के नाम पर पंजीकृत है।	रूपये 4,72,00% (रूपये चार लाख बहरार हजार मात्र)	सुरक्षित मूल्य की 10% रूपये 47,200/- (रूपये सैंतातीस हजार से सौ मान)

अचल सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि :- 08 सितम्बर 2025 ..1100 बजे — 1500 बजे नीलामी की विथि तथा बोती खोलने का समय :- 10 सितम्बर 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक

ऑफर्स / ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि :- 09 सितम्बर, 2025 अप. 5.00 बजे तक

विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रत्याभूत लेनदार, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की वेबनाइट में उपलब्ध कराया गया लिंव https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php दखें। बिक्री के महत्वपर्ण नियम एवं शर्ते :

सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो है वहां है तथा कोई उपाय नहीं आधार पर बेची जा रही है, अरएव यह बिक्री बिना किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के है।

सम्पत्ति / दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास उपरोक्त तिथि और समय पर किया जा सकता है।

बोली दस्तारेज / फार्म, जिसमें बिक्री के सभी सामान्य नियन और शर्तें दी गई हैं, बैंक के ऊपर वर्णित शाख कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार दिवस को ग्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित बोली फार्म पर अपनी सीलबंद बोलियां बँक के प्राधिकृत अधिकारी क

बोली सीलबंद लिफाफे में, जिस पर नीलामी सम्पत्ति के लिए बोली का उल्लेख किया गया हो, "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आहरि रामपुर / नेएडा में देय डिमांड डाफ्ट के रूप में संलग्न ईएमडी (बोली राशि का 10%) के साथ 09 सितम्बर 2025 को शाम \$.00 बजे तक रामपुर / नोएडा में बैंक व उपरोक्त शखा कार्यालय में जमा करनी होगी। अपूर्ण बोलियां या अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियां अवैध मानी जाएंगी और तदनुसा अस्वीकृत रूर दी जाएंगी।ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिय जाएगा। बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किए जने के बाद, उसे वापस नहीं लिय जा सकता है

सीलबंद बोलियां 10 सितम्बर 2025 को 1000-12:00 बजे बैंक के उपरोक्त शाखा कार्यालय में उस समय उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थित में खोली जाएंग और उसके बाद पात्र बोलीदाताओं को ऑफर मुल्य बढ़ाने कं लिए परस्पर बंली में भाग लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अवसर दिया जा सकता हैं। प्रस्तुत की जाने वाली बोर्ल का मूल्य सुरबित मूल्य से अधिक होगी और बंलीदाता अपनी ऑफर 50,000 / – रुपये के गुगकों में बढ़ा सहेगा। सम्पत्ति प्रधिक् अधिकारी द्वारा निर्धारित सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

जाननार होता मानारा सुर्वात के नुष्ट से जन कर राज बचा जारणा सफल बोलोदाता को बिक्के मूल्य की 25% (इंएमडी सिही) राशि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में रामपुर / नोएडा में देय डिमांड ड्राण्ट द्वार तत्काल और अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करनी होगी और बिक्री मूल्य की शेष राशि सफल बोलीदाता द्वारा बैंक द्वारा बिक्री को पुष्टि की तिषि से 18 दिनों के भीतर भुगतान की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि सफल बोलीदात बिक्री की इतों का पालन करने में विफल रहता है या कोई यूक करता है, तो ईएमडी या 25% की जमा राशि, जो भी मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। बैंक प्रस्ताबित सम्पत्ति या किसी अन्य बक्रया जैसे कि बकाया पानी / बिजली बकाया, सम्पत्ति कर, नगरंगलिका / पंचाय्त कर या अन्य शुक्क यदि कोई हो, व

संबंध में किसी प्राधिकरण य किसी अन्य लागू कानून के तहत कोई अनुमिट / एनओसी प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नही लेता है। सफल बोलौदाता को विकास प्राधिकरण के बेकायाँ सहित सभी व्ययाँ, यदि कोई हो, का वहन करना होगा, जिसमें कर/उपयोगिता बित आदि नगर निगम य

किसी अन्य प्राधिकरण / एनेंसी को तथा 'बिक्री प्रमाण–पत्र के पंजीकरण ले लिए स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क शामिल हैं। प्राधिकृत अधिकारी का किसी भी या सभी डॉफर्स / बोलियो को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिकी को स्थगित / निरस्त करने या बिन

किसी पूर्व नूचना के बिक्री की शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार सुरक्षित है।

एक बार दी गई बोली को निरस्त या वापस नहीं लिया जा सकता है। बैंक को, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, बेबी जाने वाली सम्पत्ति पर बैंक को छोड़कर किसी भी तरह के भार की जानकारी नहीं है। इच्छक पक्ष को अपनी संतुष्टि के लिए सम्पत्ति का अनना आकलन खयं करना चाहिए। बैंक किसी भी तरह से उपरंक्त सम्पत्ति की उपयुक्तता / न्यामित्व के बारे में को गारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है। किसी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सम्पत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी प्रभा ग्रहणाधिकार, ऋणभार, सम्पत्ति कर या किसी अन्य बकाय के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराय जाएगा। कर्जदार / बंधकदाता / गारंटर को यह नोटिस दिया जाता कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री के नियम और शर्तों के विवरण के अनुसर, ऊपर वर्णित अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए इच्छुव खरीदारों /खरीदारों को ला सकते हैं।

अचल सम्पत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। तथापि, अधोहस्ताक्षरी को परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्व विवेकाधिकार है, याँ आवश्यक तमझा जाता है।

बैंक सम्पत्ति पर ऐसी किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है जो बैंक की जानकारी में नहीं है।

कर्जदार / बंधकदाता / गारंटर को एतदृद्वारा सरफासी अधिनियम की धारा 8(६) के तहर 30 दिन का नानूनी नोटिस दिया जाता है, जिसे हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, कि व पूर्ण रूप से दायित्व का निर्वहन करें तथा उपरोक्त देय राशियों का भुगतान अदातन व्याज एवं व्यय सहित इस नोटिस की तिथि से तीस दिन के अन्दर करें, अन्यथा प्रत्याभूत सम्पत्ति उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार बेची जएंगी। यदि अंग्रेजी एवं स्थानीः समाचार पत्रों में बिक्री नोटिस के प्रकाशन में कोई विसंगति है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समचार पत्र स्थानेय समाचार पत्र का स्थान ले लेगा तथा उसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जएगी। यदि कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता बिक्री की तिथि से पूर्व बैंक को देव राशि का पूर्ण भूगतान कर देते हैं, त नीलामी रोक दी जाएगी। हालांकि, ऐसे मानलों में, नोटिस में बकाया राशि गर ऋण दस्तावेजों के अनुसार लागू ब्याज लगाया जाएगा और आकस्मिक व्यय लाग आदि इसको वसूली तक देय होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी का निषय अंतिम बाध्यकारी है और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह माना जएगा कि सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोली प्रस्तुत की गई है, नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ चुके हैं और वे उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे।

विवरण, सहायता, प्रक्रिया और बोली लगाने के लिए संभावित बोलीदाता संपर्क कर सकते हैं:- श्री अनमोल, सम्पर्क नंबर 9760933585

कृपया ध्यान दें कि प्रत्यामूत लेनदार, बैंक सभी कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधकराताओं को उनके पते पर डाक द्वारा बिकी नोटिस जारी करने जा रह है। यदि, किसी भी पक्ष द्वार इसे प्राप्त नहीं किया जाता है, तो बिक्री नोटिस के इस प्रकाशन को विकल्प रूप में तामील मान जा सकता है। कर्जदार / सह–कर्जदार / गारंटर / बंधकराताओं को यह नी सूचित किया जाता है कि उन्हें अपने घरेलू सामान, जो उपरोक्त परिसर में हैं / बैंक की अभिरसा में हैं यदि कोई हो, तो इस प्रकशन के 15 दिनों के भीतर पूर्व अनुमति लेकर उन्हें प्राप्त लेना चाहिए, अन्यथ बैंक की उस गर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और वह

कर्जदार / सह-कर्जदार / गारंटर / बंधकदाताओं के जोखिम पर उनका निपटान करेगा तथा बिक्री से प्राप्त राशि को बकाबा राशि में समायोजित करेगा। यदि किसी भी कारण से नैलामी विफल हं जाती है, तो कम्पनी उपरोक्त बंधक सम्पत्तियां सरफासी अधिनियम, 2002 वे तहत अधिदेशित प्रावधानों के अनुसा

निजी संधिक माध्यम से बेचने के लिए स्वतंत्र होगी। प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्नॉल फाइनैंस बैंक लि. देनांक : 04.08.2025 स्थान : नोएडा

निडो होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवेइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

ई-नीलामी - बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस

का प्रतिनूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिनूति हित प्रवर्तन अधिनियम 200 ई-नीलार्म द्वारा विक्रय। ई—मीलार्म द्वारा विकय। एतद्वारा वर्षसाधारण को तथा यिशेष रूप में कर्जदार एवं गारंटर को सूचित किय जाता है कि निन्न वर्णित संपत्ति, नीचे दी गई तादिका में वर्णित बक्तया राशि को वसूली तक निन्मांकित राशि की वसूली के दिये "जैसी **है जह है, 'जैसी है जो है' तथा "बहां जो कुछ भी है"** आबार पर बेची जाएगी। उक्त संपत्ति कर्जदार(वे), सह—कर्जवर(रो) एवं गारंटर(रो) द्वारा प्राप्ता ऋण के लिये **मैसर्स निडो होम फाइनेंत लिमिटेड** (पूर्व रे एडलवेइस हाउतिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) के पास बंधक है। निम्न वर्णित प्रतिमृत परिसन्पत्ति प्रतिमृत ऋणदात के **मीतिंक कब्जे** में है।

क. सं	कजेदर(री) / सह-कजेदार(री / गारंटर(री) का नाम	वसूली की गशि	सुरक्षित मूल्य तथा ईएमडी	नालामा का तिथि एवं समय
1.	मेहम्मद सुआवलीन (कजंदार) (सह—कर्जरार) मोहम्मद आसिफ मोहम्मद कामिल, मोहम्मद साजिद	७. 36,68,609.08/— (रु. छतीस लाख अङ्सट हजार छह सी नी तथा रेसे आठ मात्र) 31-07-2025 तक + उस गर आगे व्याज + कानूनी वर्जे पुलसूप नं IDELLAP000060374 हेतु	रु. 46,74,081 / - (रु. छियातोस लाख चौहत्तर हजार दिरानवे मात्र) धरोहर राशि जमा रु. 4,67,403.30 / - (रु. चार लाख सङ्सठ हजार चार सी नी तथा पैसे तीस मात्र)	23-08-2)25 पूर्वा: 11 से दोप 12 बजे के मध्य (5 गिनटों के असीमित श्वतः विस्तारों सहेत)
निर्	ोक्षण वां तिथि एवं समय 18-0	08-2025 पूर्व. 11.00 से अप 1.00 बजे के मध्य	भौतिक कब्जा की तिथि : 19–03-	-2025

कान नं. 1, भृतल, छत के अधिकार नहीं बी–5, राणा प्रताप बाग, दिल्ली–110007

टिप्पणी :- 1) नीलामी विक्रय वेबसाइट https://sarfaesi.audiontiger.net वं माध्यम से ऑनताइन संचालित विया जायेगा और रुंवल वे बोलीदाता जो वैध

ईमेल, आईडी प्रमाण एवं फोटो प्रमाण, पैन कार्र धारक हैं और जिन्होंने डिमांड डाफ्ट/एनईएफटी/अस्टीजीएस के माधम से ईएमडी का विधिवत बुगतान रूर दिय इनार, जाइका प्रमान एवं फोटा प्रमान, पन काव वारफ ह जार उच्छान उच्चाक क्षपट/ एनइएकट/ जारटाजाएस के नाध्यम से इरनक का वायकरा नुना है. इस '<mark>वर्गनलाइन ई-नीलानी'</mark> में बान लेने के लिए पात्र होंगे। 2) इच्छुक बोलीयताओं को डिमांड ड्रायट/आरटीजीएस/एनईएकटी द्वारा प्रेषण के माध्यम से अपनी ईएमडी निम्नलियित के पास जमा करानी होगी ला**गाओं का नाम**ः नि**डो होर फाइनेंस लिग्टिड**,

लागांवा ब नाम : गांवा हार फाइन्स स्वाप्त्य । वैक : भारतीय स्टेट बैंक, खता नंबर : 8528/86198, सरफासी –नीलामी, निडो होम फाइनेंस लिमिटेड, आईएफएससी कोड : SBIN001593. 3) ईएमडी के साथ ऑनलाइन आवेदन बोली फार्म जमा करने वी अंतिम तिथि 23-08-2025 हैं। 4) विकय के विस्तृत निवमों और शर्तों के लिए. कृपया वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें या कृपया श्री मौलिक श्रीमाली से फोन +81-6351896643 /9173528727, हेल्प नाइन ईं-मेल आईडी : Support@auctiontiger.net पर संपर्क करें।

हत्ता. /— प्राधिकृत अधिकारी निडो होम फाइनेंस लिमिटेड मोबाइल नंबर : 9004359835/9768746624 देनांक : (8-08-2025

डीसीबी बैंक लिमिटेड

प्रतिभूत अस्ति का वर्णन

(ए—सेट हाउस, 7 / 56, डी.बी.गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली — 110005) (कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः छटी मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्गे, लांअर परेल, मुंबई — 400013, नहाराष्ट्र)

DCB BANK

(पूर्व में एडलवेडस हजसिंग फाडनेंस तिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध

nido

ई-नीलामी बिक्री सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत]

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निवम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठिव क्तिय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित क प्रवर्तन अभिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलागी विक्रय नोटिस आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों, सह–कर्जदारों और गारंटरं को यह नोटिस दिया जाता है के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्तियां जो डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बंधक है, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रविभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत भौतिक कब्जा ले लिय है। संपत्तियों को नीचे उल्लिखित बकाया राशि और भविष्य का ब्याज शुक्क और लागत आदि की वसूली हेतु निविदा सह सार्वजिनक ई—नीलामी द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचा जाएगा।

सेंपत्ति को "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है", "जैसा है जैसा है", "जो कूछ भी है" और "कोई सहारा नहीं" के आबार पर बिना किसी प्रकार की

क्र. सं.	कर्जरार और गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	 आरक्षित मूल्य / 2. जमा घरोहर राशि (ईएमडी) / 3. बोली पुळि राशि 	ई-नंतामी की तिवि एवं समय	कम्मे की स्थिति
1.	विशाल वशिष्ठ और नीनू वशिष्ठ			29.08.2025 ਸ਼ਾतः 11:00 ਵਯੇ सੇ अपी. 1200 ਵਯੇ	भौतिक
2.	1.सोनू पांचाल, 2.कांता देवी और 3.लख्मी चंद	मकान नंबर 452, पुराना हमीदा, गुरुद्वारा वाका रखमा मौजा मधेदी के पास, व्युना नगर, हरियाणा– 135001	1. ह. 8,00,000/- (इ. आठ लाख मात्र), 2. ह. 80,000/- (ह. अस्सी हजार मात्र), 3. ह. 25,000/- (ह. पर्च्यीस हजार मात्र)	29.08.2025 प्रातः 11:00 बने से अर्पा 1200 बजे	भौतिक
3.	नूरञ्जमा सिद्दीकी और गुलनाज सिद्दीकी	मकान जोकि खसाा नंबर 417, 418, 421, 422 का भाग, रामगढ़, पंतुरपुर, परगना और तहसील कोइल, जिला अलेगढ़, उत्तर प्रयेश– 202001 में स्थित	1 रु. 12,00,000/- (रु. बारह लाव मात्र), 2. रु. 1,20,000/- (रु. एक लाव बीत कजार मात्र, 3. रु. 25,000/- (रु. एच्चीस हजार मात्र)	29.08.2025 प्रातः 11:00 बजे से आर्पा. 1200 बजे	भौतेक
4.	संजीव अदलखा, पैन पोलर इंजीन्यिस प्रा. लि. (इसके निवेषक संजीव अवलखा के मध्यम से), मधुमिता अत्लखा और धीतम लाल अदलखा	शिक्ष प्र. ति. (इसके वैशास का प्रति		29.08.2025 प्रातः 11:00 बजे से अपी. 1200 बजे	भौतिक
5.	संजीव अदलखा, पैन पोलर इंजीनियर्स प्रा. लि. (इसके निदेश्क संजीव अदलखा के मध्यम से), मधुमता अलखा और प्रीतम लाल अदलखा	गू.जी.एस.आए-1वी (गू.जीएफ), अंबल लाजा वैशाली, गाजियावाद, उत्तर प्रदेश 201010. (नगर निगम का संपत्ति पर लगभग 1.50 लाख रुपये का बकाया है और हमरी गिरवी रखी गई संपत्ति पर गोटिस विपका दिवा गया है)	1 रु. 22,00,000/- (रु. बाईस लाव मात्र), 2 रु. 2,20,000/- (रु. दो लाख वीस हजार मात्र), 3. रु.25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	29.98.2025 प्रातः 11:00 बजे से अर्पा. 1200 बजे	भौतिक
6.	मन्त्रीर सिंह और सविता	मकान नं. एन–3:4. द्वितीय तल ब्लॅक — एन, सेक्टर — 23 संजव नगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश —201002	 5. 9,00,000/- (रु. नी लाख मात्र, 5. 90,000/- (रु. नब्बे हजार मात्र), 7. 5. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) 	29.08.2025 ਸ਼ਾਨ: 11:00 ਕਰੇ ਦੇ अपੀ. 12:00 ਕਰੇ	भौतेक

समी सम्पत्तियों की निरीक्षण तिथ एवं समय:- 28.47.2025 से 01.08.2025 प्रातः 11:0६ वजे से अर्पा. 04:30 वजे के बीच कित्र जा सकता है, सपर्क : श्री सुमित कुत्तर, मी. 7900633166, श्री निकुंज महुर मो. 9818979116 और श्री सुनन शर्मा मो. 8395032800 पर प्राप्त :11 बजे से सार्थ 6 बजे के बीब संपर्क कर सकते हैं। इंप्पर्टी जम करने की तिथि एट समय: 28-08-2025 को अर्पा. 05:00 बजे तक या उससे पूर्व. मागीवारी अनुगेव पत्र के साथ केशईसी, पैन कार्ड, इंप्सर्टी का प्रमाण ईमेल आईटी sumit.kunar16@dcbbarx.com, srajan.snarma@dcbbark.com और nikuri.mathur@dcbbark.com पर भेजें। इच्छुक क्रेता√बोलीवाताओं को ईरमडी राशि केवल डीहोबी बैंक लिमिटेड केवल में डिमोर्ड ड्राफ्ट हे माध्यम से जमा कानी होगी।

ई—नीलामी की नियम एवं शतैं:—

क्पारित जो 'जहां है जैसी है'', ''जो है जैसी है'', ''जेसा है जैसा है'', ''जो कुछ भी है'' और ''कोई सहात नहीं'' के आधार पर बिना किसी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बेचा जाएगा।

कार्यारटा और तात्मुल के बचा जारगा। सभी वैधानिक बकरया/ परिवर शुक्त, 'पंजीकरण शुक्क, स्टाम्प शुक्क, कर आदि राहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राविकृत अधिकारी या बैंक ई—नीलमी वाली संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को दिए गए किसी भी शुक्क, भार ग्रहणाधिकार या किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदावी नहीं होगा, जिसकी जानकारी बैंक को न हो, बंलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर गारमार, जिसमें वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर का बकाया, बेजली का बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में स्ववं स्वतंत्र रूप से गूछताछ करें।

(संबर्क टी. जया प्रकाश रेडी, मो. नं. 8142000064: बैंक एंड ऑफिस: 8142000066/63/62, कार्यालय मेल आईडी: info@bankauctions.in और मेल आईडी: prakash@Bankauctions.in उनके वेबपोर्टत https://bankauctions.in/ पर उपर दी गई तालिका में उल्लिखित तारीखाँ पर 5 निनट व आइंडी: prakash@Bankauctions.in उनक विबागदेत https://bankauctions.in/ पर उसर दा गृइ तालका म उाल्लाखत ताराखा ४१ 5 1915 क अशोमित विस्तार के साथ। बोलीवाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले नैलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों की जोंत्र कर लें। बोलियाँ देखने के लिए निंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/rage/customer-comer देखें। इच्छुक बोलीवाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा तथा नैलामी सेवा प्रदात (4 closure.con) मो. नं. 8142000664: बैंक एंड ऑफिस: 8142000066/63/62, से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई—बोली के लिए अनिवार्य है। संभावित बोलीवता केवल अपने गंजीकृत

मोहाइल नंबर से ही ई—नीलाभी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

नीतामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जो वेबसाइट प्रस्ताव / निविदा दस्तावेज के साथ उप्लब्ध है। हस्ता / दिनांक: 08.08.2025

स्थानः गाजियाबाद, आगरा (उत्तर प्रदेश), हरियाणा और दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

3041



Extract of Unaudited Standalone/ Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2025

(Figures in ₹ Lakhs, unless otherwise indicated) Cuarter ended Quarter ended Quarter ended Year ended 30.06.2025 31.03.2025 30.06.2024 31.03.2025 Refer Note No. 3 Total revenue from operations 3,86,726 4,39,448 15,04,987 8 638 14.366 53,470 Profit before tax and exceptional items 14.096 Profit before tax and after exceptional items 14.096 60.801 14.366 1.05.633 Net Profit aftertax 10,478 52,138 10.631 85,478 Total Comprehensive Income after tax 10.512 51,568 10.688 84.963 Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 per share) 29.601 29,601 29,601 29.601 Other equity (excluding Revaluation Reserves 4,47,068 4,76,669 Net worth Earning Per Share (Not annualized) Basic (amount in ₹) 3.54 2888 3.59

Diluted (amourt in ₹) 3.54 17.61 28.88 3.59 (Figures in ₹ Lakhs, unless otherwise indicated Consolidated Quarter ended Quarter ended Year ended **Cuarter ended** 30.06.2025 31.03.2025 30.06.2024 31.03.2025 Refer Note No. 3) Total revenue from operations from continuing operation 4,00,917 2,92,401 4,55,467 15,67,949 Profit before tax and exceptional items from continuing operation 28,728 16.085 20,168 80.837 Profit before tax and after exceptional items from continuing operation 28.728 46.68 20,168 1.11.433 Net Profit after tax 24,288 37,187 18,944 97,624 18,937 * Total Comprehensive Income after tax 24,295 36,583 96,939 Paid-up equity share capital (Face value of ₹10 per share) 29,6)1 29,601 29,601 29,601 Other equity (excluding Revaluation Reserves) 5,50,910 Net worth 5,80,511 *Earning Per Share (Not annualized) Basic (amount in ₹) 6.59 3041

Diluted (amount in ₹) included discontined operation

tes:
The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Firancial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended June 30, 2025 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the affiresaid Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.nsei

Exchange veosites (www.seinola.com and owww.pseinola.com) and company's webste www.pscinola.com.

The above financial results were reviewed by the Audit Committee, with the management, in its meeting dated August 07, 2025 before submission to the Board for approval and the Board has approved the firancial results in its meeting held on the same day i.e. August 07, 2025. These financial results have been reviewed by the Statutory Auditors of the Parert Company i.e. PTC India Limited.

Figures of last quarter are balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published was the property of the full financial year and the published was the property of the full financial year.

year to datefigures upto the third quarter of the relevant financial year. Place: New Delhi (Dr. Manoj Kumar Jhawar) Date: August 07, 2025 Chairman & Managing Director

PTC India Limited

Fax: 011-41659144, E-mail: info@ptcindia.com, Website: www.ptcindia.com

((CIN: L40105DL1999PLC099328)

Registered Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, Tel: 011- 41659500.41595100, 46484200,